



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 30-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2019 (MAGHA 26, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

शुद्धिपत्र

दिनांक 15 फरवरी, 2019

संख्या. 25/जीएसटी-2.— हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी -2, दिनांक 31 जनवरी, 2019, में, मूल हिन्दी पाठ में,—

- (i) पृष्ठ 552 में, पंक्ति 1 में, अनुदेश 12 में, दो बार आने वाले, "शीर्ष का कारबार" शब्दों के स्थान पर, "कारबार के स्थान" के स्थान पर, "अनुदेश 12 में, दो बार आने वाले, "शीर्ष का कारबार" शब्दों के स्थान पर, "कारबार के स्थान" तथा "शीर्ष" शब्द के स्थान पर, "कारबार के स्थान" पढ़ा जाए।
- (ii) पृष्ठ 552 में, पंक्ति 6 में, "टिप्पण:(तिथि) से आपका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाता है।" के स्थान पर, "टिप्पण: (तिथि) से आपका रजिस्ट्रेशन निलंबन हटाया जाता है।" पढ़ा जाए।
- (iii) पृष्ठ 555 में, नियम 28 में, पंक्ति 10 में, "विवादित स्वीकृत कर" के स्थान पर, "विवादित कर" पढ़ा जाए।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Corrigendum

The 15th February, 2019

No. 25/GST-2.— In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 17/GST-2, dated the 31st January, 2019,-

- (i) in page 559, in line 30, for “in instruction 12, for the words “business verticals” occurring twice, the words “places of business”, read “in instruction 12, for the words “business verticals” occurring twice, the words “places of business” and for the word “vertical”, the words “place of business”.
- (ii) in page 559, in line 35, for the words “Note: - Your registration stands suspended with effect from ----- (date).” read “Suspension of registration stands revoked with effect from ----- (date).”.
- (iii) in page 563, in line 3 , for “admitted tax” read “tax”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.